

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 2504
सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास

2504. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में, विशेषरूप से इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी नए पर्यटन स्थल की पहचान की गई है;
- (ख) क्या सरकार का विचार उक्त चिन्हित स्थानों को विकसित करने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) केंद्र सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश के ऐतिहासिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या केंद्र सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक धरोहरों के व्यय हेतु अलग से कोई बजटीय प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां। पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन', 'प्रशाद' और 'केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत राजस्थान सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राजस्थान राज्य में इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): मंत्रालय की प्रशाद योजना के तहत चिह्नित तीर्थस्थल और विरासत गंतव्यों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशाद योजना के अंतर्गत देश में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूचित किया है कि राजस्थान सहित देश में एसआई के अधिकार क्षेत्र में 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/ऐतिहासिक विरासत स्थल है। इन केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की देखरेख एसआई द्वारा आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाती है। उक्त सभी 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/ऐतिहासिक विरासत स्थलों को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है।

अनुबंध-1

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 01.08.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 2504 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	परिपथ / स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	मरुस्थल परिपथ 2015-16	सांभर लेक टाऊन और अन्य गंतव्यों का विकास	50.01	51.17
2.	कृष्णा परिपथ 2016-17	गोविंददेवजी मंदिर (जयपुर), खाटूश्यामजी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का विकास	75.80	70.29
3.	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	चूरू (सालासर बालाजी) - जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घाट के बालाजी, बांधे के बालाजी) - विराटनगर (बिजक, जैत्रासिया, अंबिका मंदिर) - भरतपुर (कमान क्षेत्र) - धौलपुर (मुचकुंद)- मेहंदीपुर बालाजी- चित्तौड़गढ़ (सांवलिया सेठ जी) का विकास	87.05	68.24
4.	विरासत परिपथ 2017-18	राजसमंद (कुंभलगढ़ किला) - जयपुर (जयपुर और नाहरगढ़ किले के अग्रभाग में प्रकाश व्यवस्था) - झालावाड़ (गागरोन किला) - चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ किला) - जैसलमेर (जैसलमेर किला) - हनुमानगढ़ (गोगामेड़ी) - उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) - धौलपुर (बाग-ए-निलोफ़र और पुरानी छावनी) - नागौर (मीराबाई स्मारक, मेड़ता) - टोंक (सुनहरी कोठी) का विकास	70.61	56.57
कुल			283.47	246.27

पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के तहत राजस्थान राज्य में स्वीकृत परियोजना का विवरण।

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	2015-16	अजमेर - पुष्कर का विकास	32.64	26.11

पर्यटन मंत्रालय की केंद्रीय एजेसियों को सहायता योजना के तहत राजस्थान राज्य में स्वीकृत परियोजना का विवरण।

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	एजेसी	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
----------	------------------	-----------------	-------	--------------	-----------------

1.	2022-23	श्री तनोट कॉम्प्लेक्स, जैसलमेर क्षेत्र, राजस्थान में सीमा पर्यटन का विकास घटक:- प्रतीक्षा क्षेत्र, सोविनियर शॉप, एम्फीथिएटर, कैफेटेरिया, इंटरपिटेशन सेंटर, शौचालय सुविधा, जल सुविधा, वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम, स्क्रीन वॉल आदि।	बीएसएफ	17.68	1.60
----	---------	--	--------	-------	------

अनुबंध-II

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 01.08.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 2504 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में विवरण

पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना की संख्या	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास**	2015-16	27.77	27.77
		2	श्रीसैलम मंदिर का विकास**	2017-18	43.08	43.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	लोहित जिले में परशुराम कुंड का विकास	2020-21	37.88	7.34
3.	असम	4	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और इसके आस-पास तीर्थ गंतव्य का विकास**	2015-16	29.80	29.80
4.	बिहार	5	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास**	2014-15	4.27	2.91
		6	पटना साहिब का विकास**	2015-16	41.54	33.23
5.	छत्तीसगढ़	7	मां बमलेश्वरी देवी मंदिर, राजनंदगांव, डूंगरगढ़, छत्तीसगढ़ का विकास	2020-21	43.33	21.45
6.	गुजरात	8	द्वारका का विकास**	2016-17	13.08	10.46
		9	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाएं**	2016-17	45.36	45.36
		10	प्रशाद योजना के अन्तर्गत सोमनाथ में प्रोमिनेड का विकास**	2018-19	47.12	44.76
		11	सोमनाथ, गुजरात में क्यू मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ तीर्थयात्रा प्लाजा का विकास	2021-22	49.97	केवल प्रशासनिक अनुमोदन 10.03.22
7.	हरियाणा	12	पंचकुला जिले में नाडा साहेब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर का विकास	2019-20	49.52	28.77
8.	जम्मू और कश्मीर	13	हजरतबल का विकास	2016-17	40.46	32.37

9.	झारखंड	14	वैद्यनाथजी धाम, देवघर का विकास	2018-19	39.13	31.23
10.	केरल	15	गुरूवायुर मंदिर का विकास**	2016-17	46.14	36.91
11.	मध्य प्रदेश	16	ओंकारेश्वर का विकास**	2017-18	44.83	35.87
		17	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	4.86
12.	महाराष्ट्र	18	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2017-18	52.92	24.23
13.	मेघालय	19	मेघालय में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2020-21	29.32	8.80
14.	नागालैंड	20	नागालैंड में तीर्थस्थल अवसंरचना का विकास	2018-19	25.26	20.06
15.	ओडिशा	21	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथधाम - रामचंडी देवली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
16.	पंजाब	22	अमृतसर में करूणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास**	2015-16	6.40	6.40
		23	प्रशाद योजना के तहत रोपड़ पंजाब में चमकौर साहिब का विकास	2021-22	31.57	केवल प्रशासनिक अनुमोदन 10.03.22
17.	राजस्थान	24	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	32.64	26.11
18.	सिक्किम	25	युकसीम में चार संरक्षक संतों पर तीर्थ स्थल सुविधा का विकास	2020-21	33.32	18.50
19.	तमिलनाडु	26	कांचीपुरम का विकास**	2016-17	13.99	13.99
		27	वेलंकन्नी का विकास**	2016-17	4.86	1.86
20.	तेलंगाना	28	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	36.73	10.27
21.	त्रिपुरा	29	त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	37.80	18.42
22.	उत्तराखंड	30	केदारनाथ का एकीकृत विकास**	2015-16	34.77	34.77
		31	प्रशाद योजना के तहत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखण्ड) में तीर्थयात्रा सुविधा हेतु अवसंरचना विकास	2018-19	56.13	20.79
		32	प्रशाद योजना के तहत उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थस्थल	2021-22	54.36	14.06

			अवसंरचना सुविधाओं का संवर्द्धन			
23.	उत्तर प्रदेश	33	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-11) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास**	2014-15	14.93	10.38
		34	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण**	2014-15	9.36	9.36
		35	वाराणसी का विकास - चरण-1**	2015-16	20.40	16.32
		36	गंगा नदी, वाराणसी में कूज पर्यटन**	2017-18	10.72	8.57
		37	प्रशाद योजना - चरण II के अन्तर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	44.60	31.77
		38	गोवर्धन, मथुरा उत्तर प्रदेश में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	2018-19	39.74	30.97
24.	पश्चिम बंगाल	39	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
कुल					1323.16	798.19

**परियोजना का भौतिक निष्पादन पूर्ण हो गया है
